

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2874]

नई दिल्ली, सोमवार, 23, दिसम्बर, 2013/पौष 2, 1935

No. 2874]

NEW DELHI, MONDAY 23, DECEMBER, 2013/PAUSA 2, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3792(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के 24/300 कि.मी. से 148/300 कि.मी. तक के भूखण्ड (कृष्णागिरि-वलाजापेट सेक्शन) के निर्माण (छह लेन का बनाने/चौड़ा करने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस (21) दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् "जिला राजस्व अधिकारी, वेल्लोर-9" को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के कि.मी. 24 / 300 कि.मी. से 148 / 300 कि.मी. तक (कृष्णागिरि-वलाजापेट सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वेल्लोर	1.वनियामबदी	(1) पेदाकल्लुपल्ली	56 / 1	निजी	शुष्क	785
				56 / 2	सरकारी	पोरमबोक	80
				57 / 2ए1ए1	निजी	शुष्क	210
				57 / 2ए1बी1	निजी	शुष्क	250
				57 / 2ए2ए	निजी	शुष्क	3590
				57 / 2बी1	निजी	शुष्क	295
				57 / 2ए5ए	निजी	शुष्क	210
				197 / 1बी1	निजी	शुष्क	1415
				197 / 4बी1	निजी	शुष्क	730
				204 / 1बी1	निजी	शुष्क	3625
				204 / 2ई1	निजी	शुष्क	250
				204 / 2एच2ए	निजी	शुष्क	110
				204 / 2आई1	निजी	शुष्क	145
				204 / 2जे1ए	निजी	शुष्क	110
				204 / 2जे2ए	निजी	शुष्क	75
				204 / 2के2ए	निजी	शुष्क	65
				204 / 2के1	निजी	शुष्क	45
				योग			11990
		2. वेल्लोर	(1) केलाचुर	448	सरकारी	पोरमबोक	750
				449 / 2ए	निजी	शुष्क	2805
				499 / 1डी1	निजी	शुष्क	305
				499 / 1ई1	निजी	शुष्क	405
				499 / 2ए1	निजी	शुष्क	605
				499 / 2बी	निजी	शुष्क	505
				513 / 1बी2	निजी	शुष्क	8305
				513 / 2बी1ए	निजी	शुष्क	490
				513 / 2बी2	निजी	शुष्क	150
				541 / 1	निजी	मकान स्थल	2605
				514 / 2ए2	निजी	शुष्क	305
				514 / 2बी	निजी	शुष्क	735
				514 / 2सी2	निजी	शुष्क	1805
				514 / 6बी	निजी	शुष्क	1605
				515 / 1ए	निजी	शुष्क	305
				515 / 1बी	निजी	शुष्क	605
				515 / 1सी1	निजी	शुष्क	1405
				515 / 1सी2	निजी	शुष्क	605
				515 / 2	सरकारी	पोरमबोक	2000
				योग			26295
		2) पल्लीकोंडा		189 / बी	निजी	नम	120
				189 / 2बी	निजी	नम	110
				246 / 1बी1बी	निजी	मकान स्थल	205
				246 / 2ए1ए	निजी	मकान स्थल	195

				246 / 2ए2ए	निजी	मकान स्थल	10
				246 / 2ए3	निजी	मकान स्थल	15
				246 / 2ए4	निजी	मकान स्थल	15
				247 / 2ए1ए	निजी	मकान स्थल	135
				247 / 2बी1ए	निजी	मकान स्थल	115
				247 / 26ए1	निजी	मकान स्थल	40
				247 / 29ए1	निजी	मकान स्थल	55
				247 / 31ए1	निजी	मकान स्थल	45
				264 / 7	निजी	शुष्क	30
				265 / 1ए1ए	निजी	शुष्क	320
				265 / 1ए1बी	निजी	शुष्क	220
				265 / 9	निजी	शुष्क	155
				265 / 10	निजी	शुष्क	65
				281 / 1बी	निजी	नम	170
				281 / 2बी	निजी	नम	115
				281 / 3बी	निजी	नम	225
				284 / 1ए1ए	निजी	नम	160
				284 / 1ए2बी	निजी	नम	85
				284 / 1बी2	निजी	नम	85
				282 / 1बी	निजी	नम	185
				योग			2875
				कुल योग			41160

[फा.सं.भाराराप्रा/एनएचडीपी-v/एमसी-II/बीओटी/केडब्ल्यू/एलए/पीआईयू-कृष्णागिरि]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December. 2013

S.O. 3792(E).—In exercise of powers conferred by the Sub Section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 56) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (six laning/widening, etc), maintenance, management and operation of National Highway No.46 on the stretch of land from Km.24/300 to Km.148/300 (Krishnagiri –Walajahpet section) in the District Vellore, in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said lands may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C, of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely “District Revenue Officer, Vellore-9”, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person. or through a Legal Practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (3) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under the notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from km. 24/300 to km. 148/300 (Krishnagiri-Walajahpet Section) of the National Highway No.46 in the State of Tamil Nadu.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Square Metre)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vellore	1. Vaniyambadi	(1) Peddakallupalli	56/1	Private	Dry	785
				56/2	Govt.	Poramboke	80
				57/2A1A1	Private	Dry	210
				57/2A1B1	Private	Dry	250
				57/2A2A	Private	Dry	3590
				57/2B1	Private	Dry	295
				57/2A5A	Private	Dry	210
				197/1B1	Private	Dry	1415
				197/4B1	Private	Dry	730
				204/1B1	Private	Dry	3625
				204/2E1	Private	Dry	250
				204/2H2A	Private	Dry	110
				204/2I1	Private	Dry	145
				204/2J1A	Private	Dry	110
				204/2J2A	Private	Dry	75
				204/2K2A	Private	Dry	65
				204/2K1	Private	Dry	45
				Total			11990
		2. Vellore	(1) Kilachur	448	Govt.	Poramboke	750
				449/2a	Private	Dry	2805
				499/1D1	Private	Dry	305
				499/1E1	Private	Dry	405
				499/2A1	Private	Dry	605
				499/2B	Private	Dry	505
				513/1B2	Private	Dry	8305
				513/2B1A	Private	Dry	490
				513/2B2	Private	Dry	150
				514/1	Private	House site	2605
				514/2A2	Private	Dry	305
				514/2B	Private	Dry	735
				514/2C2	Private	Dry	1805
				514/6B	Private	Dry	1605
				515/1A	Private	Dry	305
				515/1B	Private	Dry	605
				515/1C1	Private	Dry	1405
				515/1C2	Private	Dry	605
				515/2	Govt.	Poramboke	2000
				Total			26295
			(2) Pallikonda	189/1B	Private	Wet	120
				189/2B	Private	Wet	110
				246/1B1B	Private	House site	205
				246/2A1A	Private	House site	195
				246/2A2A	Private	House site	10
				246/2A3	Private	House site	15
				246/2A4	Private	House site	15
				247/2A1A	Private	House site	135
				247/2B1A	Private	House site	115

				247/26A1	Private	House site	40
				247/29A1	Private	House site	55
				247/31A1	Private	House site	45
				264/7	Private	Dry	30
				265/1A1A	Private	Dry	320
				265/1A1B	Private	Dry	220
				265/9	Private	Dry	155
				265/10	Private	Dry	65
				281/1B	Private	Wet	170
				281/2B	Private	Wet	115
				281/3B	Private	Wet	225
				284/1A1A	Private	Wet	160
				284/1A2B	Private	Wet	85
				284/1B2	Private	Wet	85
				282/1B	Private	Wet	185
				Total			2875
				G. Total			41160

[F. No. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KW/LA/PIU-Krishnagiri]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.